

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन, 8 मार्च को वर्चुअल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाएगा

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (3 मार्च, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सोमवार, 8 मार्च को वर्चुअल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) का जश्न मना रही है। इसमें पूरे दिन की कान्फरेंस होगी, जो ग्लोबल तौर पर और लोकल स्तर, दोनों पर एकता, विचार, हिमायत और कार्रवाई को उजागर करती है।

ब्रैम्पटन की अपनी क्रिस्टीना होवोरन (Cristina Howorun), कार्यक्रम की मेजबानी करेगी, जो टोरोंटो में सिटीन्यूज (CityNews) की अवॉर्ड-विजेता पत्रकार है। यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होगा, जिसमें वर्चुअल नेटवर्किंग होगी, उसके बाद मस्कवासिन ऐग्न्यू (Mskwaasin Agnew) द्वारा इंडीजीन्स का सम्मान और ड्रमिंग सेरेमनी होगी। ब्रैम्पटन-कैलडन (Brampton-Caledon) का जॉन्टा क्लब (Zonta Club), इस कान्फरेंस को पेश करने में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का साझेदार है। पूरे दिन की ऑनलाइन कान्फरेंस हेतु रजिस्टर करने के लिए और वर्चुअल मार्किट में हिस्सा लेने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें। कान्फरेंस की झलकियों में शामिल हैं:

- ब्रैम्पटन में पैदा हुई अभिनेत्री और वर्किंग मॉम्स (Workin' Moms) की स्टार, मुख्य वक्ता ओलुनिक एडली (Olunike Adeliyi), कैनेडा की ब्लैक महिला के तौर पर एक्टिंग इंडस्ट्री की मुश्किलों को पार करने के बारे में बात करेंगी
- कॉन्ट्रैक्टर, टेलिविजन होस्ट, व्यापार में महिलाओं की अंबेसडर, शैरी होम्स (Sherry Holmes), पुरुष-प्रधान व्यापारिक इंडस्ट्रीज में महिलाओं की उन्नति के बारे में चर्चा करेंगी
- डा. फरीहा खान (Fariha Khan) और नर्स फिलिज़ ओज़मिसिर (Filiz Ozmisir) की, महामारी के दौरान ज़िंदगी के बारे में खुली बातचीत
- मनोवैज्ञानिक डा. अरीबा अदनान (Areeba Adnan), महिलाओं के लचिलेपन और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे
- इन विषयों पर लंचटाइम वर्कशॉप्स: लिंग संबंधी समानता; शिक्षा, युवा और किशोर; माताएं और परवरिश; अलग धर्म, विविधता और संस्कृति की महिलाएं; मन, आत्मा, फिटनेस और स्वास्थ्य; संकट में महिलाएं; और, टेक्नोलॉजी में महिलाएं
- अमेरिकाज गॉट टैलेंट (America's Got Talent) की फाइनलिस्ट, ब्रैम्पटन की अपनी रोबर्टा बटैग्लिया (Roberta Battaglia); कैनेडियन-नाईजीरियन फोक, कंट्री और आरएंडबी (R&B) गायिका, ननेका एटो (Nneka Atto); और आरएंडबी/हिप-हॉप (R&B/Hip-hop) कलाकार अमीरा खान (Ameerah Khan) द्वारा परफॉर्मेंस
- स्निग्धा मलिक (Snigdha Malik) की मेजबानी में मेडिटेशन के पल, और ब्रैम्पटन में औरा हाउस (Aura House) की मालकिन, लीजा क्लार्क (Lisa Clarke) के साथ वर्चुअल स्ट्रेच और रीफोकस

ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (बी.ई.सी.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दो वर्कशॉप्स का आयोजन करेगा:

शुक्रवार, 5 मार्च, सुबह 11 बजे से – दोपहर 12 बजे तक

बी.ई.सी. (BEC) पेश करता है, डा. रोबिन हैन्ली-डैफो (Robyne Hanley-Dafoe) को, जो निजी अलाइनमेंट: काम के साथ ज़िंदगी का संतुलन बिठाना और आनंद लेना, के बारे में बात करेंगी। हिस्सा लेने वाले, निजी मूल्यों की पहचान करने वालों (आईडेंटिफायर्स) की पड़ताल करेंगे और ऐसी तकनीकें सीखेंगे, जो स्वस्थ आदतों को बढ़ाती हैं और हमारे कामों में उद्देश्य और निजी मूल्यों को जोड़कर गहरे आनंद को विकसित करती हैं। रजिस्टर करने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

8 मार्च, सुबह 11 बजे से – दोपहर 12 बजे तक

बी.ई.सी. पेश करता है, कैफिनेट एंड सेलिब्रेट (Caffeinate & Celebrate) – यह एक घंटे का वृद्धि-केंद्रित महिला उद्यमियों और कारोबार मालिकों के लिए मिलने-जुलने का सामाजिक कार्यक्रम है। हिस्सा लेने वाली, इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कारोबार में महिला होने का आपके लिए क्या मतलब है; मज़ेदार, आसान बनाए विश्लेषणों में शामिल हो सकते हैं; और “मौजूदा स्थितियों” पर नए तरीके से विचार करने के लिए अपने विचार साझे कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

हवाले

“अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरी दुनिया में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न है। यह दिन, लिंग संबंधी समानता को बढ़ाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करने पर भी ध्यान दिलाता है। महत्वपूर्ण गतिविधि स्पष्ट है, क्योंकि संगठन और समूह, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए और महिलाओं की समानता के लिए जुड़ने हेतु इकट्ठे आ रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“वार्षिक तौर पर 8 मार्च को होने वाला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जब लिंग संबंधी पूरी समानता हासिल करने के लिए प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए, हमारी गति और प्रतिबद्धता को सम्मानित किया जाता है। हम विशेषतौर पर हमारी फ्रंटलाइंस पर मौजूद महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो इस महामारी के दौरान लगातार, पहले से कहीं अधिक काम कर रही हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), वार्ड्स 1 और 5, रीजनल काउंसलर

“अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उन महिलाओं की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाने के बारे में है, जो इस महामारी में फ्रंटलाइंस के काम कर रही हैं। यह कई प्रेरणादायक, सहयोगी और प्रेरक कहानियों पर केंद्रित है, जो महिलाओं और लड़कियों के तौर पर, हमारी पूरी क्षमता का लाभ लेने में हमें सशक्त बनाती हैं।”

- शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), वार्ड्स 7 और 8, सिटी काउंसलर

“हालांकि कोविड-19 के कारण व्यक्तिगत इकट्ठों पर पाबंदी है, फिर भी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वर्चुअल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दिन, हम सभी के लिए महिलाओं द्वारा दिए गए योगदानों पर विचार करने और उसे सम्मानित करने का और हमें हमारी भूमिका याद कराने का अवसर है, जो हम सभी लिंग संबंधी समानता को आगे बढ़ाने में निभाते हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca